



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 03.06.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, 45 ग्राम स्मैक बरामद करके अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ पहाडी पुत्र धनीराम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा 45 ग्राम स्मैक बरामद करके अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ पहाडी पुत्र धनीराम निवासी ग्राम बहेलियनपुरवा मजरा बबुरी थाना धौरहरा जनपद खीरी को लोकईपुरवा स्थित रामकुमार शुक्ला की बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना धौरहरा पर मु0अ0सं0 315/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जयप्रकाश उर्फ पहाडी पुत्र धनीराम निवासी ग्राम बहेलियनपुरवा मजरा बबुरी थाना धौरहरा जनपद खीरी

बरामदगी-

45 ग्राम अवैध स्मैक

पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. श्री पवन कुमार पाठक, थाना धौरहरा जनपद खीरी
2. उ.नि. श्री इन्साफ अली
3. का0 शिवम कुमार
4. का0 रविन्द्र कुमार
5. का0 लवी सिन्धू

**थाना पसगवां पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र को
गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 03.06.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 250/2022 धारा 498ए/304बी भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी हरनिया मजरा हरनाजाट थाना पसगवां जनपद खीरी को सहिजना बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी हरनिया मजरा हरनाजाट थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अनेकपाल सिंह, चौकी प्रभारी ताजपुर थाना पसगवां जनपद खीरी
2. का0 जयभारत
3. का0 हिमांशु कुमार

थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त संदीप पुत्र समलिया प्रसाद को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 03.06.2022 को थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप पुत्र समलिया प्रसाद निवासी ग्राम उसरी मजरा पिपरझला थाना मितौली जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 176/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 महताब सिंह,
2. हे0 का0 प्रेमनरायन राजपूत
3. का0 दीपक कुमार

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त राजकुमार पुत्र छोटेलाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 03.06.2022 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र छोटेलाल निवासी पसियनपुरवा मजरा पैकापुर थाना ईसानगर जनपद खीरी को पैकापुर मोड़ के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 292/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राजकुमार पुत्र छोटेलाल निवासी पसियनपुरवा मजरा पैकापुर थाना ईसानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ0नि0 कृष्ण कुमार यादव, थाना ईसानगर जनपद खीरी
- 2. हे0का0 हरप्रसाद पाण्डेय
- 3. का0 दीपांशु

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **05 वांछित व 06 वारण्टी** अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 110 लीटर अवैध शराब व 01 शराब भट्टी बरामद कर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **110 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01 शराब भट्टी** बरामद कर **08 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **06 अभियोग** पंजीकृत किए गए।